

ગામી જોડાઈ રી વાડિયર

Schedule XLV-Form No. 134

સાંચી - પાંચાઈ કુશાલ

DIVISION

સાંચી - પાંચાઈ કુશાલ

SUB-DIVISION

MEASUREMENT BOOK

670

સાંચી - પાંચાઈ કુશાલ

670

प्रमाणित किया जाता है कि इस मापी पुस्तक
में कुल मुद्रित पृष्ठ 100 (एक सौ) पन्ने हैं जो
श्री लाल बाहदुर सिंह सहायक अभियंता
कार्य अवर प्रमंडल, कलकत्ता के नाम से
निर्गत किया जाता है।

कार्यपालक अभियंता
युष्कांवि० (कार्य) प्रमंडल
अखिल
08-08-2014

Sch. XLV - Form No. 134

DIVISION

SUB-DIVISION

Measurement Book

No. 670

Name of officer

Date of first entry

Date of last entry

प्रमाणित किया जाता है कि इस मापी प्र

18th 11th 2020

Record measurement

1

Name of Work-

Situation of Work-

Agency by which work is executed-

Date of Measurement-

No. and date of agreement

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurement relating to each work)

Particulars	Details of actual measurement				Content of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of work	Construction of road from				
	Bulaki Bazar to Pahar -				
	PMGSY road. Under PMGSY (2)				
Agency name	Birend Kumar				
Agreement no.	75/537/PMGSY/2019-20				
Date of commencement	27/01/2020				
Date of completion	26/10/2020				
Date of survey					
1. Setting out pillars per L	fixing of reference mark sub				
	- 1 nos				
2. Clearing and grubbing road	land (by manual means) sub				
	5x1x30.00x3.5 (Area) = 525.00 ^m				
	3x1x30.00x3.5 (Area) = 315.00 ^m				
	1x1x30.00x3.5 (Area) = 105.00 ^m				
	1x1x20.00x3.5 (Area) = 70.00 ^m				
	= 1015.00 ^m				
	= 1015.00 ^m				
3. Excavation in soil using hydraulic	Excavation sub				
	2x1x30.00x.75x.10 = 2.25 ^m				

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
$2 \times 1 \times 20.00 \times 3.75 \times 1.0 = 1.50 \text{ m}^2$					
					$= 10.50 \text{ m}^2$
$1 \times 5 \times 30.00 \times 3.75 \times 1.0 = 19.69 \text{ m}^2$					
					$= 30.19 \text{ m}^2$
$1 \times 5 \times 30.00 \times 3.75 \times 1.0 = 11.25 \text{ m}^2$					
<u>levelling course</u>					
$5 \times 2.65 \times 1.20 \times 1.0 = 1.59 \text{ m}^2$					
$3 \times 3.45 \times 1.45 \times 1.0 = 1.50 \text{ m}^2$					
$4 \times 5.50 \times 0.90 \times 1.0 = 1.98 \text{ m}^2$					
					$= 26.82 \text{ m}^2$
					limit 24.90 m^2

6. P.V. laying spreading and compacting

store aggregates - sub

~~2x4~~

$$3 \times 1 \times 30.00 \times 3.75 \times 0.75 = 25.312 \text{ m}^2$$

$$1 \times 1 \times 30.00 \times 3.75 \times 0.75 = 8.44 \text{ m}^2$$

$$1 \times 1 \times 20.00 \times 3.75 \times 0.75 = 5.625 \text{ m}^2$$

$$5 \times 30.00 \times 3.75 \times 0.75 = 8.44 \text{ m}^2$$

$$1 \times 4.00 \times 3.00 \times 0.75 = 0.90 \text{ m}^2$$

$$= 48.71 \text{ m}^2$$

$$\text{limit } 48.60 \text{ m}^2$$

7. Construction of U.M. reinforced,

double jointed at expansion sub

$$3 \times 30.00 \times 3.75 \times 0.16 = 54.00 \text{ m}^2$$

$$3 \times 30.00 \times 3.75 \times 0.16 = 54.00 \text{ m}^2$$

Continuation

Abstract of cost

9

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
1. Construction of reference pillars					
G.B. vide item no (1) Page 1					
= 1 nos					
@ Rs 1596.18 / nos					1596 = ∞
2. Clearing as Subb's part					
Long Sub					
G.B. vide item no (2) Page 1					
= .105 Hrbt					
@ Rs 49496.70 / hrbt					5024 = ∞
3. Excavation for road work in soil with hydraulic					
(as per plan)					
= 30.19 m ³					
Limit 30.188 ~					
@ Rs 74.10 / m ³					2237 = ∞

Continuation